



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 10—अप्रैल 16, 2004 (चैत्र 21, 1926)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 10—APRIL 16, 2004 (CHAITRA 21, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा
'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी
(रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली, 2003'
मुंबई 400 005, दिनांक 29 मार्च 2004

सं. डीएनबीएस.4/ईडी(एसजी)-2004--- भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मान कर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए तथा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए जो निवेशकों के हितों के विरुद्ध हों या किसी भी रूप में ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हितों के प्रतिकूल हों, एतद्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उप धारा 1 के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि 'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली, 2003' निम्न प्रकार संशोधित हो जाएगी, अर्थात्:

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) ये दिशा-निर्देश और निदेशावली 'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली 2004' के रूप में जानी जायेगी।

(2) वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशावली का संशोधन

2. 'प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली 2003' में पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएं, अर्थात्:-

“ बशर्ते प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी धारा 3 के अंतर्गत रिजर्व बैंक का पंजीकरण मांगनेवाली पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश एवं निदेशावली, 2004 के प्रारंभ होने पर जो कारोबार करने वाली है, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अभिगृहीत या अभिगृहीत की जाने वाली कुल वित्तीय आस्तियों के कम से कम पंद्रह प्रतिशत की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि समग्र आधार पर या 100 करोड़ रुपये, इनमें से जा भी कम हो, रखेगी।

साथ ही यह भी शर्त है कि -

- (i) किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि किसी भी मामले में दो करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये।
- (ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक)(संशोधन) दिशा-निर्देश तथा निदेशावली, 2004 के प्रारंभ होने पर कारोबार करने वाली कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी इस प्रकार प्रारंभ किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वाधिकृत निधि का स्तर प्राप्त कर लेगी।
- (iii) प्रथम परंतुक के प्रयोजन के लिए राशि परिगणित करते समय इस बात को हिसाब में नहीं लिया जायेगा कि प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए गठित न्यास को आस्तियां अंतरित की गयीं हैं अथवा नहीं।
- (iv) जब तक आस्तियों की वसूली नहीं होती तथा ऐसी आस्तियों हेतु जारी की गयी प्रतिभूति का प्रतिदान नहीं होता, तब तक यह राशि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास बनी रहेगी।
- (v) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी पैराग्राफ 10 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट तरीकों के अलावा प्रतिभूतिकरण के लिए गठित न्यास द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों में स्वाधिकृत निधि की राशि का निवेश कर सकती है।”


श्यामला गोपीनाथ
(श्यामला गोपीनाथ)
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2004

संख्या : यू-16/53/2001-चि.शाखा-2(केरल) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त(दक्षिण क्षेत्र) बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

<u>क्र.सं.</u>	<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>	<u>अवधि</u>
1.	डॉ. सान्था राजेन्द्रन	कन्नूर	30.11.03 से 29.11.04


 (डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2004

सं. एन-15/13/1/4/2001-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ बंठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:

“विशाखापटनम ज़िले के गाजुवाका मंडल में स्थित दुव्वाडा और अगनमपूडी राजस्व गांव”।

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/8/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ बंठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:

सेलम जिला में तालुक के निलवरपट्टी, गज्जलनायकपट्टी और उसके छोट गांव वीरसामी पुदुर, परनाट्टमंगलम, तम्मनायकनपट्टी, जारि कोण्डलमपट्टी, अमणि कोण्डलमपट्टी और उसके छोट गांव-कोण्डलमपट्टी, दासनायकणपट्टी, संतियूर, संतियूर उत्तयम्पट्टी के राजस्व ग्राम।

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 18 मार्च 2004

सं. एन-15/13/11/1/91-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:

राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	जिला
1. हम्बड़ा	2-जे	लुधियाना
2. भट्टधुआं	3	लुधियाना
3. गौसपुरा	131	लुधियाना
4. रानके	4	लुधियाना
5. सालेम	132	लुधियाना

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/13/4/2003-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:

“जिला-बुलन्दशहर की तहसील एवं राजस्व परगना खुर्जा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-मन्जपुर, अगवाल, वेथरूपुर, बन्दौली, धरपा, नेहरूपुर, कपालपुरा, वाजिदपुर, हजरतपुर, मुरारीनगर, बरोली, आविदानगर, मुन्डा खेड़ा रोड़, छीटोला, नगला कोठी, चाक चन्दा, जंक्शन रोड़ इण्डस्ट्रियल स्टेट एवं तेना।”

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/13/15/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:

“जिला गाजियाबाद की बड़ी गाजियाबाद नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2680/9-7-1 जी. वी. दिनांक: 4.8.1995 द्वारा शामिल गांव।”

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2004

सं. सम्मेलन-5(16)/2003/उत्तर प्रदेश/94355

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में जिसका यहां योजना के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(16)/2003/उत्तर प्रदेश/635 दिनांक 12.03.1997 जिसे भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 29.03.1997 को प्रकाशित किया गया था, का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

क्र. सं०	सदस्य का नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।	अध्यक्ष (पैरा 4(1)(क) के अंतर्गत)
2.	श्रमायुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।	सरकारी सदस्य (पैरा 4(1)(ख) के अंतर्गत)
3.	विशेष सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	
4.	श्री अरुण कुमार बंसल, अध्यक्ष, लघु उद्योग भास्ती, बी-128, कमला नगर आगरा ।	सदस्य नियोक्ता पक्ष (पैरा 4(1)(ग) के अंतर्गत)
5.	श्री डी.पी. दीक्षित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इस्ट्रीज़ ऑफ यूपी, 2/122, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।	
6.	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, 91-सी.वाई. चिन्तामणि मार्ग, जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद ।	सदस्य कर्मचारी पक्ष (पैरा 4(1)(घ) के अंतर्गत)
7.	श्री देवनाथ सिंह, एफ-7, नगर महापालिका क्वाटर्स, पिशाच मोहन, वाराणसी ।	

8.	श्रीमती सख्ना आहुजा, 115, जोरबाग, नई दिल्ली ।	अतिरिक्त सदस्य (नियोक्ता के प्रतिनिधि) पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत
9.	श्री राघव गुप्ता, प्रबंध निदेशक, सी.एल. गुप्ता एंड सन्स, रामपुर रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।	
10.	श्री संजीव चतुर्वेदी, रेजिडेंट निदेशक, पी.एच.डी. चेम्बरस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, 1-ए, ला-प्लेस, शाहनजफ रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।	
11.	श्री इरशाद मिर्जा, अध्यक्ष, मिर्जा टेनरीज़, 14/6, सिविल लाइन्स, कानपुर उत्तर प्रदेश ।	
12.	श्री विजय पाल सिंह चौहान, गांव व झकधर-बलवा, तहसील शामली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।	
13.	श्री श्रीकांत अवस्थी, 2, नवीन मार्किट, कानपुर-208 001 (उत्तर प्रदेश) ।	अतिरिक्त सदस्य (कर्मचारियों के प्रतिनिधि) पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत
14.	श्री एम.पी. सिंह, 2, नवीन मार्किट, कानपुर-208 001 (उत्तर प्रदेश) ।	
15.	श्री विरेन्द्र कुमार, राजकर आश्रम, शिवाजी मार्ग, बी.एम.एस. कार्यालय, मेरठ ।	
16.	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, "चंचल भवन", गौरा बाजार, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) ।	
17.	श्री अशोक सिंह, इंटक, ए-176, दारुल शफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।	गैर सरकारी सदस्य (कर्मचारियों के प्रतिनिधि) पैरा 4(1) (ड.) के अंतर्गत

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य तब तक कार्य करता रहेगा जब तक सरकारी राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है ।

यह तत्काल रूप से प्रभावी होगा ।

30/4/04
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त


नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2004

सं. सम्मेलन-5(2)/2003/ए.एस./23852

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(2)/2003/ए.एस./21465 दिनांक 12.02.2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), असम राज्य में निम्नलिखित व्यक्ति को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा दिये गये क्रम संख्या पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
12.	श्री विजय कुमार गोयनका, गोयनका वूलन मिल्स लिमिटेड, रानी बाजार बिल्डिंग, फैसी बाजार, गुवाहाटी-781001	नियोक्ता प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य



(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सम्मेलन-5(9)/97/महाराष्ट्र/23863

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(9)/97/महाराष्ट्र/27085 दिनांक 16.07.2003 जोकि दिनांक 2 अगस्त, 2003 को भारत के राजपत्र की धारा 4 के खण्ड 3 में प्रकाशित किया गया (जारी संख्या 31) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), महाराष्ट्र में निम्नलिखित व्यक्तियों को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा दिये गये क्रम संख्या पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के द्वारा नियुक्त
15.	प्रो० (डॉ) विश्वनाथ डी कारद, संस्थापक अध्यक्ष तथा महानिदेशक, दल्ट पीस सेंटर (आलन्डी), मइर्स, एम.आई.टी., पुणे, महाराष्ट्र	नियोक्ता प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य
16.	श्री एस.के. परांजपे, बी.एम. संघ, 185, सनिवार पेठ, पुणे-411030	कर्मचारी प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य
17.	श्री जोगेन्द्र प्रताप सिंह, 25, इब्राहिम मेशन, डॉ० अम्बेडकर मार्ग, पार्ले, मुम्बई-12	

30/4/04
(अजय सिंह)


केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सम्मेलन-5(15)/2002/तमिलनाडु/23875

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (i) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(15)/2002/तमिलनाडु/38859-880 दिनांक 25.08.2003 जोकि दिनांक 13 सितम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र की धारा 4 के खण्ड 3 में प्रकाशित किया गया (जारी संख्या 37) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), तमिलनाडु में निम्नलिखित व्यक्ति को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा दिये गये क्रम संख्या पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
14.	श्री अरूण अलगप्पन्, ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड, पैरीवेयर डिवीजन, नं. 234, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नै - 600 001	नियोक्ता प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य



 (अजय सिंह)
 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सम्मेलन-5(8)/2003/मध्य प्रदेश/23885

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (i) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(8)/2003/मध्य प्रदेश/21384 दिनांक 12.02.2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), मध्य प्रदेश में निम्नलिखित व्यक्तियों को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा तथा दिये गये क्रम संख्या पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के द्वारा नियुक्त
14.	श्री कमल ग़ोवर, 127, आर्दश नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	नियोक्ता प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य
15.	श्री सुनील गुप्ता, 121-ए-बी, स्कीम नं० 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश	
16.	श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, शास्त्री नगर, ए-ब्लॉक, जिला - भिंड, मध्य प्रदेश	कर्मचारी प्रतिनिधि योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य


(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त


सं. सम्मेलन-5(11)/2002/पंजाब/23830

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (I) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(11)/2002/पंजाब/16829 दिनांक 28.11.2003 जोकि दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया (जारी संख्या 51) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

वर्तमान में क्रम संख्या 11 के तहत की गयी प्रविष्टि का विलोप किया जाता है तथा क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), पंजाब में निम्नलिखित व्यक्तियों को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में निम्न क्रम संख्यानुसार नियुक्त किया जाएगा :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
11.	श्री डॉ० सुभाष शर्मा, अध्यक्ष, ईटक पंजाब शाखा, 74, एस.एफ. सरस्वती विहार, कपूरथला रोड, जालंधर	कर्मचारी प्रतिनिधि (योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)
14.	श्री चतुर्भुज जोशी, निवासी - विरका बाईपास चौक, विरका डेयरी के नजदीक, बटाला रोड, अमृतसर, पंजाब।	

उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 8 में दर्शाये गये व्यक्ति के नाम को 'मदन मोहन व्यास' पढ़ा जाए।



 (अजय सिंह)
 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सम्मेलन-5(17)/2003/पश्चिम बंगाल/23841

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (i) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(17)/2003/पश्चिम बंगाल/16295 दिनांक 21.11.2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित व्यक्तियों को स्कीम के पैरा 4(1) के परन्तुक के तहत अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा दिये गये क्रम संख्या पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के द्वारा नियुक्त
18.	श्री बी.एन. दास, भास्तीय मजदूर संघ, 10, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता-700 001	कर्मचारी प्रतिनिधि (योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)
19.	श्री एन.सी. डे, बी/35/4, कार्लिंदी हाउस इस्टेट, लेक टाउन, कोलकाता - 712 201	


 (अजय सिंह)
 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**Department of Non-Banking Supervision
Central Office, Centre No 1
World Trade Centre
Mumbai 400 005**

No.DNBS. 4 /ED (SGV)-2004 dated March 29, 2004

**The Securitisation Companies and Reconstruction
Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003**

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, hereby in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, directs that 'The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003' shall stand amended, as follows, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These guidelines and directions shall be known as the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2004.
- (2) They shall come into force with immediate effect.

Amendment of the Directions

2. In the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003, in paragraph 5, the following provisos shall be added, namely :-

"Provided that every Securitisation company or reconstruction company seeking the Bank's registration under Section 3, or carrying on business on commencement of the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2004, shall have a minimum Owned Fund not less than fifteen percent of the total

financial assets acquired or to be acquired by the Securitisation Company or Reconstruction Company on an aggregate basis, or Rs. 100 crore, whichever is less;

Provided further that –

- (i) the minimum Owned Fund for any Securitisation Company or Reconstruction Company shall in no case be less than Rs two crore;
- (ii) a Securitisation Company or Reconstruction Company carrying on business on the commencement of the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2004 shall reach the level of minimum Owned Fund specified in the first proviso within three months from such commencement;
- (iii) while computing the amount for the purpose of the first proviso, no account shall be taken whether the assets are transferred to a trust set up for the purpose of Securitisation or not;
- (iv) the amount shall be continued to be held by the Securitisation Company or Reconstruction Company until realisation of assets and redemption of security receipts issued against such assets;
- (v) the Securitisation Company or Reconstruction Company may invest the amount of Owned Fund, in addition to the modes specified in clause (ii) of Paragraph 10, in the security receipts issued by the trust set up for the purpose of securitization."


(Shyamala Gopinath)
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th March 2004.

No. U-16/53/2001/Med.II(Kerala).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SZ), Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. Santha Rajendran	30.11.03 to 29.11.2004	Kannur

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 16th March 2004

No. N-15/13/1/4/2001-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"The Areas falling with the Revenue Villages of Duvvada and Agnampudi of Gujuwaka Mandal in Visakhapatnam District".

S. THOMAS
Director (P&D)

No. N-15/13/14/8/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamilnadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamilnadu namely

"Areas comprising the revenue villages of Nilavarapatti, Gajjalanaickenpatti and its Hamlet veerasamy pudur, Parnattamanglam, Thammanaickenpatti, Jarikondalmpatti, Amani Kondalmpatti & its Hamlet Kondalampatti, Dasanaickenpatti, Santhiyur, Santhiyur Attayampatti of Salem Taluk in Salem District".

R.C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

The 18th March 2004

No. N-15/13/11/1/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely

Name of Revenue Village	Head Bast No.	Tehsil and District
1. Hambran	2-J	Ludhiana
2. Bhatta Dhuan	3	Ludhiana
3. Gaunspura	131	Ludhiana
4. Ranke	3	Ludhiana
5. Salem	132	Ludhiana

R.C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/13/4/2003-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

"Areas Comprising the Revenue villages of Manjpur, Awgal, Bantauli, Dharpa, Wethrupur, Nehrupur, Kapalpura, Wazidpur, Hazaratpur, Murari Nagar, Baroli, Abida Nagar, Munda Khera Road, Nagala Kothi, Chitola, Chack Chanda, Junction Road Industrial Estate and Tena in revenue Pargana & Tehsil Khurja in the District of Buland Shahar."

R.C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/13/15/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

"Extended Municipal limit of Ghaziabad in the District of Ghaziabad (As notified by the Government of Uttar Pradesh vide Notification No. 2680/9-7-1 G.V. dated 4.8.1995)".

R.C. SHARMA
Joint Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi, the 16th March 2004

No. Conf. 5(16)2003/UP/94355

No. _____ In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as the "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(16)2003/UP/635 Dated 12.03.1997 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi which was published in The Gazette of India, Part – III, Section-4 on 29.03.1997, the Chairman, Central Board of Trustees, EPF hereby sets up a Regional Committee for the State of Uttar Pradesh consisting of the following persons namely:-


Sl. No.	Name & Designation of the Member	Appointment as
1.	Principal Secretary/ Secretary Labour Department, Govt. of Uttar Pradesh.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner, Kanpur, Uttar Pradesh.	Official Members [Under Para 4(1)(b)]
3.	Special Secretary, Labour Department, Govt. of Uttar Pradesh.	
4.	Shri Arun Kumar Bansal, President, Laghu Udyog Bharti, B – 128, Kamla Nagar, Agra.	Members (Employers' side) [Under Para 4(1)(c)]
5.	Shri D.P. Dikshit, Chief Executive Officer, Associated Chamber of Commerce & Industries of UP, 2/122, Vinaykhand, Gomti Nagar, Lucknow.	
6.	Shri Girish Chandra Srivastava, 91 – C. Y. Chintamani Marg, George Town, Allahabad.	Members (Employees' side) [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri Dev Nath Singh, F – 7, Nagar Mahapalika Quarters, Pishach Mochan, Varanasi.	

8.	Smt. Sarla Ahuja, 115, Jor Bagh, New Delhi.	Additional Members (Employers' Representatives) [Under Proviso to Para 4(1)]
9.	Shri Raghav Gupta, Managing Director, C.L. Gupta & Sons, Rampur Road, Moradabad (U.P).	
10.	Shri Sanjeev Chaturvedi, Resident Director, PHD Chambers of Commerce and Industries, 1A, La Place, Shahnajaf Road, Lucknow (UP).	
11.	Shri Irshad Mirza, Chairman, Mirza Tanneries, 14/6, Civil Lines, Kanpur (UP).	
12.	Shri Vijay Pal Singh Chauhan, V.P.O. – Balwa, Tehsil – Shyamli, Muzzaffar Nagar (UP).	
13.	Shri Shrikant Awasthi, 2, Navin Market, Kanpur – 208 001 (UP).	Additional Members (Employees' Representative) [Under Proviso to Para 4 (1)]
14.	Shri M.P. Singh, 2, Navin Market, Kanpur – 208 001 (UP).	
15.	Shri Virendra Kumar, Shjankar Ashram, Shivaji Marg, BMS Office, Meerut.	
16.	Shri Suresh Chandra Srivastava, "Chanchal Bhawan", Gora Bazar, Ghazipur (UP).	
17.	Shri Ashok Singh, INTUC, A- 176, Darul Shafa, Lucknow, (UP).	Non Official member (Employees Representative) [Under Para4(1)(e)]

The Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Uttar Pradesh Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.



(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER


New Delhi, the 18th March 2004

No. Conf. 5(2)2003/AS/23852

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5(2)2003/AS/21465 Dated 12.02.2004.

The under mentioned person shall be appointed as an additional member in the Regional Committee (EPF), Assam State under proviso to para 4(1) of the scheme at Serial No. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed as.
12	Shri Vijay Kumar Goenka, Goenka Woolen Mills Ltd., Rani Bazar Building, Fancy Bazar, Guwahati – 781001.	<u>Representative of Employers</u> [Additional member under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]



(AJAI SINGH)


CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(9)97/MH/23863

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No.Conf. 5(9)97/MH/27085 Dated 16.07.2003 published (Issue Number 31) in part 3 Section 4 of the Gazette of India on 2nd Aug. 2003.

The under mentioned persons shall be appointed as additional members in the Regional Committee(EPF), Maharashtra State under proviso to para 4(1) of the scheme at Serial Nos. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed by Chairman of Central Board of Trustees (E.P.F.)
15.	Prof.(Dr.) Vishwanth D. Karad, Founder President & D.G. World Peace Center (Alandi), Maeer's MIT, Pune, Maharashtra.	<u>Representative of Employers</u> [Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]
16.	Shri S.K. Paranjape, B.M. Sangh, 185, Saniwar Peth., Pune – 411030.	<u>Representative of Employees</u> [Additional members under proviso to Para 4 (1) of the Scheme.]
17.	Shri Jogendra Pratap S. 25, Ebrahim Manshan, Dr. Ambedkar Marg, Parel, Mumbai – 12.	



(AJAI SINGH)


CENTRAL PROV. ENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(15)2002/TN/23875

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, Central Board of Trustees (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5 (15)2002/TN/38859-880 Dated 25.08.2003 published (Issue Number 37) in part 3 Section 4 of the Gazette of India on 13th Sep. 2003.

The under mentioned person shall be appointed as an additional member in the Regional Committee (EPF), Tamilnadu State under proviso to para 4(1) of the scheme at Serial No. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed as
14.	Shri Arun Alagappan, EID Parry (India) Limited, Parryware Division, No. 234 N.S.C. Bose Road, Chennai- 600 001.	<u>Representative of Employers</u> [Additional member under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]



(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(8)2003/MP/23885

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5(8)2003/MP/21384 Dated 12.02.2004.

The under mentioned persons shall be appointed as additional members in the Regional Committee (EPF), Madhya Pradesh State under proviso to para 4(1) of the scheme at Serial Nos. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed by Chairman of Central Board of Trustees (E.P.F.)
14.	Shri Kamal Grover, 127, Adarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur, Madhya Pradesh.	<u>Representative of Employers</u> [Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]
15.	Shri Sunil Gupta, 121-A-B, Scheme No.54, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh.	
16.	Shri Virendra Singh Rana Shastri Nagar, A-Block, District-Bhind, Madhya Pradesh.	<u>Representative of Employees</u> [Additional members under proviso to Para 4 (1) of the Scheme.]

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(11)2002/PUNJAB/23830

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5(11) 2002/PB/16829 Dated 28.11.2003 published (Issue Number 51) in part – III, Section 4 of the Gazette of India on 20th Dec. 2003.

The existing entry shown against the Sl. No.11 shall stand deleted and the under mentioned persons shall be appointed as additional members in the Regional Committee (EPF), Punjab State under proviso to para 4(1) of the scheme at Sl. Nos. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed as
11.	Shri Dr. Subhash Sharma, President, INTUC Punjab Branch, 74 SF Saraswati Vihar, Kapurthala Road, Jalandhar.	<u>Representative of Employees'</u> [Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]
14.	Shri Chaturbhuj Joshi, R/o Verka Bye Pass Chowk, Near Verka Dairy, Batala Road, Amritsar, Punjab.	

Further, the name of the person shown at Sl.No. 8 of the notification cited above, may be read as " Madan Mohan Vyas".

(AJAI SINGH)


CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(17)2003/WB/23841

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No.Conf.5(17)2003/WB/16295 Dated 21.11.2003.

The under mentioned persons shall be appointed as additional members in the Regional Committee(EPF), West Bengal State under proviso to para 4(1) of the scheme at Serial Nos. shown:

Sl. No.	Name & Designation	Appointed as
18.	Shri B.N. Das, Bhartiya Mazdoor Sangh, 10,Kiran Shankar Roy Road, Kolkata – 700 001.	<u>Representative of Employees</u> [Additional members under proviso to Para 4 (1) of the Scheme.]
19.	Shri N.C. De, B/35/4, Kalindi House Estate, Lake Town, Kolkata – 712 201	



(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004